



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण 1934 (श0)
(सं0 पटना 618) पटना, मंगलवार, 27 नवम्बर 2012

सं० 3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-17/2009—16214

वित्त विभाग

संकल्प

26 नवम्बर 2012

विषय:—नक्सल विरोधी अभियान में संलग्न अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के रूप में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के पदाधिकारियों को एस0टी0एफ0 के अनुरूप 30% विशेष भत्ता देने की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12416, दिनांक 31.12.09 द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स के निर्धारित कर्तव्य के अनुरूप कार्यरत कर्मी को पुनरीक्षित मूल वेतन का 30% विशेष भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-1748, दिनांक 03.03.2010 एवं संख्या-6658, दिनांक 13.08.10 के द्वारा राज्य के नक्सली संगठनों एवं उसकी गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर वरीय स्तर के पुलिस नेतृत्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल के उप-समादेष्टा स्तर के पदाधिकारियों की सेवा इन पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर ली जा रही है । ये प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एस०टी०एफ० के अनुरूप नक्सल-विरोधी अभियान में स्वयं भाग लेते हैं ।

इन प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12416, दिनांक 31.12.2009 के आलोक में 30% विशेष भत्ता अनुमान्य किए जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा जिलों में नक्सल निरोधी अभियान के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) के पद पर पदस्थापित केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन की अवधि के दौरान मूल वेतन का 30% विशेष भत्ता भुगतान की स्वीकृति करने का निर्णय लिया गया है । उपर्युक्त विशेष भत्ता संबंधित पदाधिकारियों को बिहार सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर योगदान देने की तिथि से देय होगा । इस स्वीकृति के पूर्व यह भी देखा जाएगा कि प्रतिनियुक्ति की अवधि में इन्हें केन्द्र सरकार से इस तरह का कोई विशेष भत्ता प्राप्त नहीं हो रहा है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मो० सउद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 618-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>